



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2806]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 29, 2015/पौष 8, 1937

No. 2806]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 29, 2015/PAUSA 8, 1937

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(मुख्य योजना अनुभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2015

का.आ. 3527(अ).—दिल्ली विकास प्राधिकरण/केन्द्र सरकार का, दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11-‘क’ के अंतर्गत दिल्ली मुख्य योजना-2021/जोन के-II की क्षेत्रीय विकास योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे जनता की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोधन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो अथवा कोई सुझाव देना हो, तो वे अपनी आपत्ति/सुझाव इस सूचना के जारी होने की तिथि से तीस दिनों की अवधि के अंदर आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, ‘बी’ ब्लॉक, विकास सदन, नई दिल्ली-110023 को लिखित रूप में भेज सकते हैं। आपत्ति करने अथवा सुझाव देने वाले व्यक्ति साफ अक्षरों में अपना फोन, फैक्स, मोबाइल नम्बर और ई-मेल आई.डी. सहित अपना नाम और पता भी दें।

संशोधन

दि.मु.यो. 2021/जोन के-II (द्वारका) की क्षेत्रीय विकास योजना में एक स्थल के भूमि-उपयोग का ‘सार्वजनिक/अर्ध सार्वजनिक सुविधाओं (पी.एस.-1)’ से ‘उपयोगिता’ (यू-3) में परिवर्तन। विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	अवस्थिति	क्षेत्रफल	भूमि उपयोग (दि.मु.यो.-2021)	जिसमें भूमि उपयोग परिवर्तित किया जाना है	सीमाएं
	1	2	3	4	5
1.	सेक्टर-5 द्वारका में स्थल	लगभग 4 हेक्टेयर	सार्वजनिक/अर्ध सार्वजनिक(पी.एस.-1)	उपयोगिता (यू-3)	उत्तर : प्रस्तावित अस्पताल स्थल (2 हेक्टेयर) दक्षिण : 30 मीटर चौड़ा रोड पूर्व : पालम नाला पश्चिम : 20 मीटर चौड़ा रोड

2. प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला दि.मु.यो.-2021 का पाठ निरीक्षण के लिए उपर्युक्त अवधि के दौरान सभी कार्य-दिवसों को, उप निदेशक (मुख्य योजना) कार्यालय, दिल्ली विकास प्राधिकरण, छठी मंजिल, विकास मीनार, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली-110002 में उपलब्ध रहेगा। प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला नक्शा/पाठ दि.वि.प्रा. की वेबसाइट अर्थात् www.dda.org.in पर भी उपलब्ध रहेगा।

खफा. सं. एफ. 20(34)2014-एम पी,
डी. सरकार, आयुक्त एवं सचिव

दिनांक : 29.12.2015

नई दिल्ली

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
(Master Plan Section)
PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 29th December, 2015

S.O. 3527(E).— The following modifications which the Delhi Development Authority/Central Government proposes to make to the Master Plan for Delhi – 2021/Zonal Development Plan of Zone K-II under Section 11-A of DD Act, 1957, is hereby published for public information. Any person having any objection / suggestion with respect to the proposed modification may send the objection / suggestion in writing to the Commissioner -cum-Secretary, Delhi Development Authority, 'B' Block, Vikas Sadan, New Delhi-110023 within a period of thirty days from the date of this notice. The person making the objections or suggestions should also give his / her name, address including phone, fax, mobile number and E-mail I.D. which should be legible.

MODIFICATION

The change of landuse of one site from 'Public' semi public facilities (PS1) to 'Utility' (U-3) in MPD 2021/ZDP of Zone K-II (Dwarka). Details are as under:

S.No.	Location	Area	Landuse (MPD 2021)	Landuse Changed to	Boundaries
	1	2	3	4	5
1.	Site at Sector-5, Dwarka	Approx 4 hacts.	Public/ Semi Public (PS1)	Utility (U-3)	North : Proposed Hospital site (2 hacts.) South : 30 mtr. wide road East : Palam Drain. West : 20 mtr. wide road.

2. The Text of MPD-2021 indicating the proposed modification is available for inspection at the office of Dy. Director (MP), Delhi Development Authority, 6th Floor, Vikas Minar, I.P. Estate, New Delhi on all working days during the period referred above. The Plan / Text indicating the proposed modification is also available on DDA's Web Site i.e. www.dda.org.in

[F. No. F.20 (34)2014- MP]
D. SARKAR, Commissioner-Cum-Secy.

Date: 29.12.2015
New Delhi.